बर्ष :-04 **अंकः** - 249 मुरादाबाद

30 December 2024

(Monday)

पृष्ठ:-08 मूल्यः- 3.00 रूपया

भारत सरकार से रजिस्टर्ड RNI No.UPBIL/2021/83001

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, अलीगढ, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

'एकता का महाकुंभ'' 'समाज से नफरत और विभाजन खत्म करने का संकल्प लेकर लीटें,

पीएम मोदी की श्रह्वालुओं से अपील

साल के अंतिम मन की बात में बोले पीएम मोदी- महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश

पीएम मोदी ने प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। करीब चार मिनट तक उन्होंने महाकुंभ का जिक्र किया। साथ ही गत दिनों महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज के दौरे का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ का जिक्र किया। पीएम मोदी में संगम के तट पर



कांग्रेस के जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान की नई तारीख का एलान, अमित शाह से मांगेंगे इस्तीफा इस अभियान का एलान कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दौरान किया गया था, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के चलते सात दिन के शोक के कारण इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बताया है कि उनकी पार्टी जय बापू, जय भीम और जय संविधान अभियान 3 जनवरी के बाद शुरू करेगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीते दिनों अमित शाह ने संसद में अपने भाषण के दौरान डॉ. आंबेडकर का अपमान किया। गौरतलब है कि इस अभियान का एलान कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दौरान किया गया था, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के चलते सात दिन के शोक के कारण इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया

पूरे साल चलेगा अभियान-जयराम रमेश ने कहा कि बेलगावी में इस अभियान का एलान किया गया था, लेकिन मनमोहन सिंह के निधन के चलते सात दिन के शोक के चलते इसे 3 जनवरी 2025 तक रोक दिया गया है। अभियान के तहत पार्टी रैलियां आयोजित करेगी। 26 जनवरी 2025 को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के जन्मस्थान पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। 25 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2026 तक देशभर में संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा निकाली जाएगी।



लगने वाले महाकुंभ के महात्म्य के बारे में करीब चार मिनट तक बोले। कहा कि महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश का मंत्र सभी लोग आत्मसात करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा पर देशवासी चलें।13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी बोले, दिल प्रसन्न हो गया। विशाल, सुंदर और भव्यता देख मुग्ध हो गए।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाकुंभ की विशेषता इसकी विशालता ही नहीं, बल्कि विविधता भी है। महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों लोग शामिल होने जा रहे हैं। लाखों संत होंगे, हजारों परंपराएं, अनेकों अखाड़ों आ रहे हैं, जो अनेकता में एकता का दृश्य दिखेगा, जो पूरे विश्व में कहीं और नहीं। उन्होंने कहा कि यह एकता का महाकुंभ है, जो एकता के मंत्र को सशक्त करेगा। उन्होंने देशवासियों से

आह्वान किया कि महाकुंभ में जाएं तो एकता का संकल्प लेकर ही लौटें। डिजिटल कुंभ के बारे में की चर्चा- पीएम मोदी ने महाकुंभ की तैयारी में एआई के प्रयोग का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि विभाजन और विद्वेश की भावना को त्याग कर लौटें। डिजिटल महाकुंभ के बारे में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। कहा कि पहली बार महाकुंभ में एआइ चैटबाट का प्रयोग हो रहा है, जो 11 भारतीय भाषाओं में है, जिस पर टेक्स्ट चल रही है। कुछ दिन पहले वह मैसेज और बोलकर भी महाकुंभ प्रयागराज गए थे। वहां की सभी जानकारी प्राप्त की जा क्षेत्र की विशालता को देखे थे। एआइ पावर कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो महाकुंभ में बिछड़ने वालों की सहायता करेंगे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी लोगों को जानकारी दी और संकल्प दिलाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि जब हम कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लेकर लौटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम %मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित

किया। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी लोगों को जानकारी दी और संकल्प दिलाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि जब हम कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लेकर लौटें। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस समय संगम तट पर भव्य तैयारियां चल रही हैं। कुछ दिन पहले प्रयागराज गया गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। महाकुंभ की विशेषता इसकी विशालता में ही नहीं है। कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य, विश्व में कहीं और देखने को नहीं

एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। जब हम इसमें शामिल हों तो एकता के मंत्र को साथ लेकर वापस आएं। पीएम ने कहा कि जब हम कुंभ में भाग लेंगे, तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लेंगे। कम शब्दों में कहूंगा कि महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। दूसरे शब्दों में कहें तो गंगा की अविरल धारा, न बंटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बंटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल नेविगेशन की मदद से श्रद्धालु महाकुंभ 2025 में विभिन्न घाटों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों तक पहुंच सकेंगे। यही नेविगेशन सिस्टम पार्किंग स्थलों तक पहुंचने में भी मदद करेगा। कुंभ आयोजन में पहली बार एआई चैटबॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई चैटबॉट के जिरये कुंभ से जुड़ी सभी तरह की जानकारी 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध था तो हेलीकॉप्टर से वहां चल होगी। इस चैटबॉट से संदेश हेलीकाप्टर से महाकुंभ मेला रही है। बताया कि महाकुंभ में रहीं तैयारियां देखकर खुश हो भेजकर कोई भी कैसी भी मदद मांग सकता है। पूरे मेला क्षेत्र को एआई संचालित कैमरों से कवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान अगर कोई अपने परिजनों से बिछड़ जाता है तो ये कैमरे उसे ढूंढने में मदद करेंगे। श्रद्धालुओं को डिजिटल खोया-पाया केंद्र की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को उनके मोबाइल फोन पर सरकार द्वारा स्वीकृत टूर पैकेज, आवास और होमस्टे की जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। साथ ही प्रएकताकामहाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करें।

सपा मुखिया अखिलेश यादव मिलता है। इसलिए ये हमारा कुंभ ने संभल मामले पर एक बार फिर सरकार को घेरा। कहा कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है। इसकी भी खोदाई हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एंव सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा एवं योगी सरकार को घेरा। कहा कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है। इसकी भी खोदाई होनी चाहिए। सपा मुखिया ने योगी का नाम लिए बिना कहा कि उनके हाथ में विकास की नहीं, विनाश की रेखाएं हैं। कभी भी उनके हाथ की रेखाएं देख लेना। यह प्रदेश को कर्ज में डुबोकर जाएंगे। 2027 में सरकार का खजाना खाली करके जाएंगे।कुंभ में लोग स्वयं आते हैं-सपा प्रमुख अने कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगे तो कुंभ मेले में अव्यवस्था की पूरी पोल खोल देंगे। कुंभ में आने का किसी को

आमंत्रण नहीं दिया जाता है,

लोग स्वय कुंभ में आते हैं।



'मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी

शिवलिंग, इसकी भी हो खोदाई.

..', अखिलेश बोले– उनके हाथ

जवाब देगा। कहा कि भाजपा आगामी चुनाव के बाद नीतीश को बिहार का सीएम नहीं बनाएगी। अदाणी से बड़ा संभल में इंसानी जिंदगियां जाने का मुद्दा है। आरक्षण पर डाका जा रहा-कहा कि योगी आदित्यनाथ धार्मिक सीएम तो हैं, पर विजिनरी (दूरगामी सोच वाले) नहीं। सपा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्कर के विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से मॉडल पेश किए। पीडीए यानी पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक या कहें पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग सपा के साथ हैं। वे देख रहे हैं कि हो जाएगा। क्या यह चालू समझ चुका है। आम चुनाव में को किनारे किया जा रहा है।



जेजू एयर के सीईओ ने हादसे के लिए मांगी माफी, 176 लोगों

के मारे जाने की आशंका

कार्यकारी अधिकारी) किम ई-बे ने मुआन हवाई अड्डे पर हुई दुर्घटना के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हम भी संबंधित सरकारी एजेंसी की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया में हुए भीषण विमान हादसे को लेकर एयरलाइंस जेजू एयर के सीईओ ने माफी मांगी है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर ये माफी पोस्ट की गई है। जेजू एयर के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) किम ई-बे ने मुआन हवाई अड्डे पर हुई दुर्घटना के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट

जेजू एयर के सीईओ (मुख्य



एयर इस दुर्घटना को तुरंत संभालने और उसमें सवार लोगों हम भी संबंधित सरकारी के परिवारों का समर्थन करने एजेंसी की जांच रिपोर्ट का के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इंतजार कर रहे हैं। सीईओ ने हम सरकार के साथ मिलकर मृतकों और उनके परिवारों के दुर्घटना के कारण का पता प्रति जताई संवेदना-किम ई-बे लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। ने माफीनामे में लिखा कि एक बार फिर हम इस दुर्घटना %सबसे पहले, हम उन सभी में अपनी जान गंवाने वालों के लोगों से माफी मांगते हैं जिन्होंने लिए प्रार्थना करते हैं और उनके जेजू एयर पर भरोसा किया। 29 शोक संतप्त परिवारों के प्रति दिसंबर को सुबह लगभग 9-03 गहरी क्षमा याचना करते हैं। बजे, बैंकॉक से मुआन जाने विमान हादसे में 120 लोगों की वाली फ्लाइट 7C2216 में मौत की पुष्टि-दक्षिण कोरिया मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित उतरते समय आग लग गई। हम

सुबह 181 लोगों को ले जा रहा एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 176 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों की मानें तो बाकी यात्रियों के बचे होने की उम्मीद में, मैं इस घटना के लिए गहरी बहुत कम ही है। 175 यात्रियों जिम्मेदारी महसूस करता हूं। जेजू और चालक दल के छह सदस्यों को लेकर यह विमान बैंकॉक से लौट रहा था। अधिकांश यात्री दक्षिण कोरियाई नागरिक थे।समाचार एजेंसी एएनआई ने न्यूज एजेंसी योनहाप के हवाले से बताया कि लैंड करते वक्त विमान के लैंडिग गियर में खराबी आई। इसकी वजह से विमान ने बिना लैंडिंग गियर के लैंड करने की कोशिश की और रनवे पर फिसल गया। इसके बाद वह फिसलता हुआ हवाई अड्डे की बाउंड्रीवॉल से जा टकराया। इसके बाद विमान में धमाके साथ आग लग गई।

यमुना में विसर्जित की गई अस्थियां, एक जनवरी को होगा अखंड पाठ का

आयोजनः तीन को अंतिम अरदास

परिवार के सदस्यों ने रविवार सुबह निगमबोध घाट से अस्थियां एकत्र कीं और बाद में उन्हें गुरुद्वारे के पास यमुना नदी तट पर अष्ट घाट पर ले जाया अस्थियां विसर्जित सिंह की अस्थियां सिख रीति-रिवाजों गुरुद्वारे के पास सिंह के परिवार के निगमबोध घाट से में उन्हें गुरुद्वारे के पर ले जाया पत्नी गुरशरण कौर, दमन सिंह और अमृत स्थल पर मौजूद रहे।

गया। यहां यमुना नदी में की गईं।पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन उनके परिवार के सदस्यों द्वारा के साथ मजनू का टीला यमुना नदी में विसर्जित की गईं। सदस्यों ने रविवार सुबह अस्थियां एकत्र कीं और बाद पास यमुना नदी तट पर अष्ट्रघाट गया।डॉ. मनमोहन सिंह की उनकी तीन बेटियां उपिंदर सिंह, सिंह व अन्य रिश्तेदार विसर्जन सिख रीति-रिवाजों के तहत

परिवार एक जनवरी को मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर अखंड पाठ का आयोजन करेगा तीन जनवरी को संसद परिसर के पास रकाबगंज गुरुद्वारे में भोग समारोह, अंतिम अरदास और कीर्तन आयोजित किया जाएगा।

सपादकीय Editorial

The architect of economic freedom'

The architect of India's 'economic freedom' the Prime Minister of the country for 10 consecutive years, the architect of many 'milestone' schemes, the great economist Dr. Manmohan Singh has passed away. He lived a full life of 92 years and gave the country 'second independence', what more could have been done in one life? Therefore, his demise is his earthly destiny. India was an independent country, but the dreams and economic dimensions of the average Indian were not relatively free. We were a poor and debt-ridden country. However, today we are a developing country and have set the goal of becoming 'developed'. In 1991, India's foreign exchange reserves were only one billion dollars, so there was a severe crisis of imports. The then Chandrashekhar government had to mortgage 46.91 tonnes of gold in the banks of England and Japan to raise 400 million dollars for the import of petroleum and fertilizers. At that time Congress Prime Minister Narasimha Rad appointed Dr. Manmohan Singh as the Finance Minister and with that economic liberalization started writing the chapter of India's 'second independence'. However, Prime Minister Rao rejected the draft of Dr. Singh's first budget. His expectations were out of the box. Economic challenges were placed before Dr. Singh and in a very short time, he prepared such a budget that freed India's 'economic destiny' from crises and shortages. The economy was opened up The doors of the country were opened for foreign investors and companies. Dr. Singh used to say - Why should India be afraid of anyone? We have reached such a stage of development where instead of being afraid of foreigners, we should welcome them. Our entrepreneurs are no less than anyone. We have full faith in our industrialists. Ultimately, within two years of the phase of economic liberalization that was started by that budget of July 24, 1991, the foreign exchange reserves increased to 10 billion dollars, i.e. 10 times more. The era of license and inspector raj ended and automatic route for foreign direct investment was created in 34 sectors. Many restrictions on companies were lifted. Controllership on corporate capital issues was abolished and SEBI was given constitutional powers. Tax exemption under Section 80HHC of Income Tax Act was also announced for software export. The economic reforms initiated by Dr. Manmohan Singh as Finance Minister were also continued by the government of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, as a result of which India became the 'economic superpower' of the world. Today, on the basis of those economic reforms, India is the 5th largest economy of the world and the foreign exchange reserves are more than 650 billion dollars. In fact, Dr. Manmohan Singh was not only the architect of India's 'economic freedom', but also an angel because a single person cannot play the wide range of responsibilities and roles from **International Monetary Fund, World Bank Economic Advisor in the Government of** India, Governor of Reserve Bank to Prime Minister. He was certainly a rare personality. As Prime Minister, Dr. Singh implemented many 'milestone' schemes. Who can forget that legacy and democratic thinking? Prime Minister Singh made a law for compulsory. free education for children aged 6-14 years. In view of government transparency and accountability, he made the 'Right to Information' law. He gave legal form to food security. He implemented the 'MGNREGA law which guarantees more or less 100 days of employment in a year. Salute to him.

Credibility of Parliament in danger, questions being raised on the relevance of legislature

Questions are being raised from all sides on the relevance of legislature and its related institutions. The reason is that now instead of debates in the Parliament, there is uproar. When the House does not function, how will work be done there? This feeling is rapidly taking root in the common people that now there is no proper debate on any subject in the Parliament. 'Enmity should be strong, but there should be a scope that when we become friends, we should not be embarrassed...' Nowadays, I feel like reciting this verse of the famous poet Bashir Badr again and again. The reason is the atmosphere of political bitterness. The way foul language is being used openly inside and outside the Parliament

is sad. The life of but it should be done with dignified disagreement, words in the Parliament Parliament will have to and dialogue, and not waste atmosphere of the country's population Keeping in mind the will have to live up to it by round development of the this, the reputation of the tarnished. Questions are relevance of the legislature The reason is that now uproar in the Parliament. to be adjourned repeatedly work be done when the



democracy lies in disagreement, dignity. If attention is paid to then at least the use of cheap will definitely stop. The build consensus through debate its time in creating an disagreement. Today, 65 percent is of youth below 35 years of age. structure of this population, we accelerating the pace of allyouth. If we are unable to do Parliament and the MPs will be being raised from all sides on the and its associated institutions. instead of debate, there is Due to the uproar, the House has without any reason. How will the House will not function? The

truth is that the members who create ruckus in the Parliament have got the green signal from the leaders of their party. They are told to keep sloganeering in the House and not let the work be done. If you are aware of the functioning of the court, then you will know that there the lawyers fight cases against each other from morning till evening. There are heated debates between them, but at lunch and then breakfast time, everyone sits and gossips. There is no bitterness between them. Parliament members can also learn something from such lawyers. Just a few days ago, a motivational speaker and scholar of Hindu religious texts was saying in a seminar that it is absolutely not right to consider someone as an enemy or to have enmity with them in life. You can consider yourself a better person only from the day you do not have any bitterness against anyone, but in Parliament, there is a feeling of enmity between the ruling party and the opposition. Now this feeling has started appearing outside the Parliament as well. Sometimes it is very painful that now memorable speeches are not heard in Parliament. There was a time when meaningful discussions used to take place in Parliament and members used to give pithy speeches. We have had many brilliant MPs, who have made significant contributions with their eloquence, logical ability and parliamentary knowledge. Who can forget the speeches given by Atal Bihari Vajpayee in Parliament. He is known for his poems and speeches. Dr. Ram Manohar Lohia also used to put forth his views boldly on issues of critical style and social justice. Madhu Limaye is remembered again and again. He used to ask sharp questions during Question Hour. He was a powerful speaker. George Fernandes was also in the same league. He was vocal for social justice and the rights of the poor. Apart from this, there have been many other MPs who have enriched the Indian Parliament with their sharpness. Once the famous cricket commentator Venkat Sundaram was telling that his father, an educationist, PM Sundaram used to tell him in his childhood that he should read the proceedings of the Parliament carefully in the newspapers. Reading them will help in understanding the situation of the country and the world. Would any parent today tell his children to read the news related to the proceedings of the Parliament or watch the proceedings on TV? The reason is very clear that not only has the level of debate in the Parliament fallen, but there is a situation of war there. Parliament cannot function only by quarreling and making false allegations against each other. Last week, a shameful incident took place in the Parliament premises when two MPs got injured in a scuffle. An investigation is going on as to who pushed whom, but the push was given, that is why one MP's head got injured? Despite all the disagreements in the Parliament, it is necessary to have debate, controversy and dialogue on matters of national interest. What will happen if there is no debate on matters of national importance in parliamentary democracy? Today, this feeling is rapidly taking root among the common people of the country that nothing happens in the Parliament as per the rules and the Constitution. Members go there only to create a ruckus. It should be understood that the importance of the Parliament and its credibility are being questioned. This is a dangerous sign for democracy. Now the country watches the ruckuscreators directly on TV. The TV broadcast of the proceedings of the Parliament was started in the hope that this would raise the level of the proceedings of the Parliament, but now the opposite is happening.

Fake medicines, there should be no formality in the name of campaign

This is not the case right now and this is why cases of recovery of fake medicines keep coming up from time to time. In the recent past, fake medicines have been recovered on such a large scale in different parts of the country that it does not seem that those who make them have any fear. It is not only worrying that many popular medicines are made in fake form. Preparation to launch a campaign against fake

medicines is the need of the no formality is done in the name should be such that along with manufacture and sale of fake strict punishment. This will help not the case right now and this medicines keep coming up from medicines have been recovered of the country that it does not any fear. It is not only worrying in fake form. It is also a matter able to sell fake medicines. government hospitals. This is medicines have access to the it has also come to light that have been found to be fake. samples of medicines of the found to be of low quality. Low medicines. It cannot be ignored medicines were found to be of



hour, but it is necessary to ensure that of such a campaign. This campaign exposing the elements involved in the medicines, they can be made a part of in discouraging such elements. This is is why cases of recovery of fake time to time. In the recent past, fake on such a large scale in different parts seem that those who make them have that many popular medicines are made of concern that those who do this are also Sometimes fake medicines reach possible only when those selling fake government machinery. In some cases, even expensive life-saving medicines Another problem is that many times the drug manufacturing companies are quality medicines are in a way fake that just last month 111 samples of low quality. Similarly, samples of two

medicines were found to be fake. There is no justification for government-licensed drug companies to make low quality medicines. The bitter truth is that this is happening. This means that the drug manufacturing companies are neither being monitored properly nor the quality of the medicines made by them is being tested as per the rules and regulations. There is no use of rules and regulations and monitoring system which are not proving to be effective and which are not affecting the health of those who manufacture and sell fake or substandard medicines. It should be noted that in the past, serious questions have been raised in other countries on the quality of medicines manufactured in India. In some such cases, action had to be taken against the accused companies. At a time when India is being seen as the pharmacy of the world, it should be ensured that the manufacture and sale of fake as well as substandard medicines stops. Fake and substandard medicines not only put the lives of patients in danger, but they also work to shake the trust of the common people on the government system.

आकांक्षा लगने लगी थी बोरिंग तो लिव इन पार्टनर ने उस्तरा से गला रेतकर छुड़ा लिया पीछा आकांक्षा पहले पति के संपर्क में थी, जानकारी पर हुआ था हंगामा

मुरादाबाद- उत्तराखंड की काशीपुर निवासी अंजली उर्फ आकांक्षा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके लिव इन पार्टनर मोहित सैनी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। भोजपुर थाना पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। शनिवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर एसपी सिटी कुंवर

आकाश सिंह और एएसपी अमरिंदर सिंह ने ब्लाइंड मर्डर केस का थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-काशीपुर मार्ग पर गांव जहांगीरपुर में ने शव के फोटो खींच कर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए क्षेत्र के गड्डा कालोनी निवासी भूरा कश्यप ने महिला की पहचान मामले में नागफनी के बंगला गांव निवासी मोहित सैनी और उसके समय भूरा कश्यप ने मोहित सैनी को अंजली उर्फ आकांक्षा का भोजपुर शरद मलिक की टीम ने नामजद आरोपी मोहित सैनी और कर लिया। पूछताछ में दोनों पहले टालमटोल करते रहे। बाद में स्वीकार कर ली। उसने पुलिस को बताया कि वह अंजली उर्फ पहले पित से नजदीकी बढ़ाने लगी थी। लिहाजा बोर होकर उसने की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त स्प्लेंडर बाइक और आने पर छुटकारा पाना चाहता था आरोपी - एसपी देहात ने बताया पिता टेलर हैं और दूध की डेरी भी चलाते हैं। जनवरी 2023 में पर कमरा लिया था। सद्दाम दिल्ली के किसी होटल पर काम करता के बीच अवैध संबंध बन गए। भनक लगने पर सद्दाम 31 दिसंबर गया। इसके बाद मोहित ने आकांक्षा को चंदननगर लोकोशेड के लगा। चार माह पूर्व मोहित उसे लेकर उत्तराखंड के उधमसिंह नगर लगा। आरोपी ने बताया कि वहां उसे पता चला कि आकांक्षा के



सड़क किनारे महिला का शव लावारिस हालत में मिला था। पुलिस थे। जिसकी मदद से उत्तराखंड के उधमिसंह नगर के काशीपुर थाना अपनी बेटी अंजली उर्फ आकांक्षा के रूप में की। पिता भूरा ने इस साथी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। केस दर्ज कराते पित बताया था। एसपी देहात ने बताया कि शनिवार को एसएचओ उसके साथी ओमकार शर्मा निवासी बंगला गांव नागफनी को गिरफ्तार पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो मोहित ने हत्या करने की बात आकांक्षा के साथ बिना शादी किए रह रहा था। आकांक्षा अपने पीछा छुड़ाने के लिए हत्या कर दी। एसपी देहात के अनुसार आरोपियों आलाकत्ल उस्तरा बरामद किया गया है। अवैध संबंधों में खटास कि पूछताछ में मोहित ने बताया कि वह बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र है। अंजली उर्फ आकांक्षा अपने पति सद्दाम के साथ उसके यहां किराये था और यहां बहुत कम आता था। उसी दौरान मोहित और आकांक्षा 2023 को आकांक्षा से झगड़ा करने के बाद वह उसे छोड़कर चला पास किराये पर कमरा दिला दिया। वहां उसके साथ लिव इन में रहने जिले के आईटीआई थाना क्षेत्र के न्यू केशवपुरम में किराये पर रहने सद्दाम से पहले एक और पित शोएब था, जिससे उसे तीन साल की

खुलासा किया। एसपी देहात ने बताया कि बीते बुधवार को भोजपुर

बेटी भी है। वहां जाने के बाद आकांक्षा ने शोएब से मिलना जुलना शुरू कर दिया। इस पर आकांक्षा और मोहित में विवाद होने लगा। आरोपी ने यह भी बताया कि उसके माता-पिता उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने लगे थे इसलिए वह खुद भी आकांक्षा से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसीलिए उसने आकांक्षा को रास्ते से हटाने का फैसला किया और उसकी हत्या कर दी। दोस्त ने पकड़ा हाथ, आरोपी ने खुद गर्दन पर चलाया उस्तरा -एएसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि हत्यारोपी मोहित ने 10 दिन पहले काशीपुर के छतारी चौराहा फ्लाईओवर के नीचे से उस्तरा खरीदा था। फिर 23 दिसंबर को ट्रेन से मुरादाबाद आया और यहां नागफनी के बंगला गांव सोनू नर्सरी के पास रहने वाले अपने दोस्त ओमकार शर्मा से मिलकर हत्या करने की योजना बनाकर लौट गया। अगले दिन वह फिर मुरादाबाद आया और कॉल करके ओमकार को स्टेशन पर बुलाया। बाद में शाम को ट्रेन से काशीपुर पहुंच गया। वहां से शराब खरीदी और आकांक्षा के साथ शराब पी। प्लानिंग के तहत रात करीब ढाई बजे उठा और आकांक्षा को बहाने से बाइक से लेकर तीनों मुरादाबाद के लिए निकल पड़े। बाद में भोजपुर थाना क्षेत्र में जहांगीरपुर के पास पहुंचने पर बहाने ने मोहित ने बाइक रोक ली। बाद में ओमकार ने आकांक्षा के हाथ पकड़ लिए और उसने उस्तरा से आकांक्षा का गला रेत दिया।

निगम प्रशासन ने तोड़ी माफियाओं की कमर, अभियान चलाकर 900 करोड़ की संपत्ति को कराया कब्जा मुक्त

मुरादाबाद- विशेष अभियान चलाकर निगम प्रशासन ने भूमाफियाओं की कमर तोड़ते हुए नगर निगम की 900 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया है। अब तक नगर निगम ने 17 संपत्तियों को



कराया है। इनमें कर्ड भवन और भूमि शामिल है। सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे लोगों पर निगम की कार्रवाई जारी है। नगर निगम की ओर से जून के महीने से संपत्तियों

मुक्त कराया जाने का अभियान शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक नगर निगम के द्वारा 899.25 करोड़ रुपए की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। निगम ने इस अभियान की शुरुआत सिविल लाइंस कंपनी बाग स्थित लगभग 8 करोड़ रुपए के बने भवन को कब्जा मुक्त कराने के साथ की थी। लगभग 400 वर्ग मीटर के इस भवन का आवंटन शहर के पहले मेयर हुमायूं कदीर के नाम पर था। आवंटन की सीमा खत्म होने के बाद यहां पर कब्जा था जिसे नगर निगम ने वापस लेने की कार्रवाई की थी। इसके बाद इसी ऋम में बड़ी कार्रवाई करते हुए टाइटस स्कूल परिसर की जमीन को नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराया था। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि कब्जा मुक्त सरकारी जमीनों का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए होगा। उन्होंने बताया कि 300 करोड़ की संपत्ति को अभी कब्जा मुक्त कराया जाना बाकी है। बीते 6 महीने में कई कब्जे खाली कराए गए हैं। कुछ प्रमुख संपत्तियां हैं जैसे टाइटस स्कूल, कटघर थाने के बगल की जमीन, मुरादाबाद के पहले मेयर हुमायू कदीर का शासकीय आवास भी खाली कराया गया है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। अभी बीपीएस स्कूल की जमीन खाली कराई गई थी उसमें इंडोर स्टेडियम, टाइटस स्कूल पर कन्वेक्शन सेंटर मैरिज हॉल, कटघर थाना के बाजू वाली जमीन पर पीपीपी मॉडल पर मल्टीलेवल पार्किंग और मैरिज हॉल बना रहे हैं।

संभल में बुजुर्ग दंपती की मौत: भरभराकर रात में गिरी बरामदे की छत, मलबे में दबने से गई जान.. सुबह मिली जानकारी

मुरादाबाद- घर के बरामदे की छत गिरने से वृद्ध दंपती की मलबे में दबकर मौत हो गई। रात में हुई घटना का पता ग्रामीणों को सुबल लगा। पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच की। बनियाठेर थाना क्षेत्र के गांव बनियाखेड़ा में शनिवार की रात घर के बरामदे के नीचे सो रहे वृद्ध दंपती के ऊपर अचानक

भरभरा कर छत गिर गई। मलबे में दब कर वृद्ध दंपति शोर मोहम्मद (62) और उसकी पत्नी बनारसी (60) की मौत हो गई। घटना की जानकारी रविवार सुबह ग्रामीणों मिली।आनन-फानन में मलबा हटाया गया लेकिन दंपती चारपाई पर मृत अवस्था में मिला। सूचना पाकर थाना पुलिस मौके पर



पहुंची और जानकारी की। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। गांव बनियाखेड़ा निवासी मृतक शेर मोहम्मद के एक बेटा व तीन बेटी हैं। सभी की शादी हो चुकी है।इकलौता बेटा मोहम्मद रूम अपनी पत्नी शकीना व आठ बच्चों के साथ दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। गांव में रह कर शेर मोहम्मद और उसकी पत्नी बनारसी खेती किसानी कर जीवन यापन कर रहे थे। शनिवार की रात दंपती घर के बरामदे में चारपाई पर सो रहे थे।देर रात किसी समय बरामदे की सीमेंट के गाटर, बांस और मिट्टी से बनी छत भरभरा कर नीचे आ गिरी। दंपती मलबे में पूरी तरह से दब गए। सुबह साढ़े पांच बजे करीब जब ग्रामीण उधर से गुजरे तो उनकी नजर मलबे पर पड़ी। जिससे शोर मच गया और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने किसी तरह मलबा हटाया तो चारपाई पर दोनों मृत अवस्था में पड़े थे। ग्रामीणों ने पुलिस और मृतक के बेटे को सूचना दे दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और जानकारी की। दोपहर करीब 12 बजे बेटा भी परिवार के साथ गांव पहुंच गया। बेटे ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। जिससे पुलिस बिना किसी कार्रवाई के लौट आई। प्रभारी निरीक्षक मोहित चौधरी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जानकारी की है। मृतकों के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। कमरे में सोता वृद्ध दंपति तो बच सकती थी जान- वृद्ध दंपती के घर में दो कमरे, बरामदा व आंगन है। देर रात किसी समय बरामदे की छत भरभरा कर गिर गई। कमरों की छत नहीं गिरी। ग्रामीणों का कहना है कि शेर मोहम्मद और उसकी पत्नी बनारसी रोजाना कमरे में ही सो रहे थे। शनिवार की रात भी अगर कमरे में ही सो रहे होते

शादी का झांसा देकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के टीम लीडर ने किया रेप

मुरादाबाद- सिविल लाइंस की रहने वाली एक युवती को शादी का झांसा देकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के टीम लीडर सज्जाद अली खान ने कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि आरोपी ने उससे दो लाख रुपये भी लिए। दबाव बनाने पर शादी करने से इनकार कर दिया। विरष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने बताया कि वह एक चश्मे के शोरूम पर काम करती है। आरोप है कि शोरूम पर एक जनवरी को आरोपी आंगनबाड़ी केंद्र मौलागंज कोठी गया बिहार निवासी सज्जाद अली खान चश्मा बनवाने के लिए आया और उसका नंबर ले लिया। आरोपी ने खुद को अविवाहित होने की बात कहकर उससे बातचीत शुरू कर दी। बाद में पता चला कि सज्जाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के टीम लीडर के पद पर तैनात है। पीड़िता के घरवाले भी उसके निकाह करने के लिए लड़के की तलाश कर रहे थे। जिस पर आरोपी उसके घर वालों से मिलकर शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद झांसे में लेकर समय-समय पर घुमाने ले जाता था। आरोप है कि इस बीच उसने उसके मर्जी के बगैर कई बार उसके साथ जबरन अवैध संबंध बनाए। विरोध करने पर उसने शादी करने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं आरोपी ने जुलाई में एक फ्लैट वसंत कुंज कालोनी द्वारिका दिल्ली में खरीदा। उसके बाद आरोपी ने उससे दो लाख रुपये लिया। जिसे आज तक वापस नहीं किया। आरोपी पहले से था शादीशुदा- आरोप है कि सज्जाद अली खान ने 24 नवंबर को रजामंदी से निकाह किया। जिसमें सज्जाद अली खान की मां, छोटा भाई और बहन समेत उसके दो बच्चे निकाह में सम्मिलित होने के लिए मुरादाबाद आए। सभी कार्यक्रम पूर्ण होकर निकाह हो गया और 25 नवंबर को लोग बिहार वापस चले गए। पित सज्जाद अली खान के साथ उक्त स्थान पर निवास करने लगी। सज्जाद अली कुछ दिन बाद छुप-छुप कर अपने घर फोन पर बात करता था। शक होने पर जानकारी की तो पता चला कि सज्जाद की एक पत्नी रुखसार व दो बच्चे जायरा व रूहान हैं। जोकि बिहार में रहते हैं। आरोपी बात-बात पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। आरोपी ने कहा, तुम्हें तड़पा-तड़पा कर मार डालूंगा-पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने एक दिन उस पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि, वह किसी तरह से खुद को बचा पाई। आरोपी ने कहा कि मुझे तो तुझे गर्भवती करना था सो मैंने कर दिया अब तुम मेरे बच्चे की मां बनेगी और मैं तुम्हें तड़पा -तड़पा कर मार डालूंगा। साथ ही वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। सिविल लाइंस थाना प्रभारी मनीष सक्सेना ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

संक्षिप्त समाचार

www.knlslive.com

पहले फेसबुक से दोस्ती कर बढ़ाईं नजदीकियां...फिर डेढ़ साल तक किया युवती से रेप आरोपी लगातार देता रहा शादी का झांसा, चार के खिलाफ रिपोर्ट

मुरादाबाद- फेसबुक पर दोस्ती के बाद रामपुर के युवक ने अमरोहा की युवती को प्रेमजाल में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि ब्लैकमेल करके उसने डेढ़ साल तक शोषण किया। बहाने से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बुलाकर अभद्रता की। कोतवाली पुलिस पकड़ कर ले गई तो समझौते के लिए धमकी दिलवाने लगा। पीड़िता की शिकायत पर डीआईजी के आदेश से कोतवाली पुलिस ने तीन नामजद समेत चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अमरोहा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी युवती ने बीते दिनों डीआईजी को शिकायती पत्र देकर बताया कि फेसबुक पर करीब दो साल पहले उसका संपर्क रामपुर के गांव रसूलपुर निवासी आमिर अहमद से हुआ। बातचीत के दौरान नजदीकियां बढ़ी तो आरोपी आमिर ने पीड़िता को विश्वास में लेकर अपने पास बुलाया। बाद में उसे नैनीताल, अजमेर और रामपुर में अपने दोस्त के घर भी साथ ले गया। पीड़िता के अनुसार बाद में आरोपी ने एक दिन उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसने विरोध करते हुए फटकार लगाई तो गलती मानने लगा। बाद में यह कहकर ब्लैकमेल करने लगा कि वह आत्महत्या करके तुम्हें और तुम्हारे परिवार को फंसवा देगा। पीड़िता के अनुसार वह डर गई और आरोपी के खिलाफ शिकायत नहीं की। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि डेढ़ साल से वह पीड़िता को परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं वह 50 हजार रुपये भी पीडिता से ऐंठ चुका है। पीड़िता का आरोप है कि 7 दिसंबर को आमिर अहमद ने कॉल करके उसे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बुलाया। जहां पीड़िता के साथ आमिर अहमद ने अभद्रता की। जिस पर पीड़िता ने 112 पर कॉल करके पुलिस बुला ली। कोतवाली पुलिस आमिर को पकड़ कर ले गई। पीड़िता के अनुसार घटना के अगले ही दिन नादिल और एक अन्य व्यक्ति उसके घर आए और फैसला करने के लिए दबाव बनाने लगे। आरोप है कि आमिर के भाई रईस अहमद ने भी कॉल करके पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद पीड़िता ने डीआईजी से गुहार लगाई। जहां से एफआईआर के आदेश हुए। कोतवाली थाना प्रभारी जसपाल सिंह ग्वाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी आमिर, उसके भाई रईस, नादिल और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

निर्माणाधीन पुलिस चौकी की नींव पर महिलाओं ने की पूजा, कहा- अब इलाके में सुरक्षित तरीके से होगी आवाजाही

मुरादाबाद- संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी निर्माण तेजी से चल रहा है। वहां पर महिलाओं ने दीप जलाकर पूजा की और सुरक्षा का भरोसा जताया। 24 नवंबर को बवाल के बाद प्रशासन ने रातभर काम कर चौकी निर्माण शुरू करवा रहा है। संभल में जामा मस्जिद के पास सुरक्षा के मद्देनजर नई पुलिस चौकी का निर्माण तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही मौके पर हिंदू समुदाय की महिलाओं ने चौकी की नींव पर दीप जलाकर विशेष पूजा-अर्चना की। उन्होंने इसे शुभ संकेत बताते हुए क्षेत्र की सुरक्षा और सुख-शांति की कामना की।महिलाओं ने आटे से नक्षत्र बनाकर दीप जलाए और इस पहल को क्षेत्र के लिए सकारात्मक बताया। उनका कहना था कि चौकी के बनने से उन्हें सुरक्षा का एहसास होगा। उन्होंने इसे सुखद बदलाव बताते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि अब हमें पुलिस की मौजूदगी से सुरक्षा का भरोसा रहेगा।चौकी निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। शनिवार रातभर एएसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों की निगरानी में काम चला। निर्माण स्थल पर सुरक्षा के लिए विशेष लाइटें लगाई गईं और फोर्स तैनात की गई। पंडित शोभित शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन कर चौकी निर्माण की विधिवत शुरुआत कराई।24 नवंबर के बवाल के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा-24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद से ही प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मस्जिद के पास चौकी का निर्माण सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। भूमि विवाद पर उठा सवाल- जिस जमीन पर चौकी बन रही है, उसे लेकर विवाद सामने आया है। स्थानीय लोग उस भूमि को अपनी बताते हुए प्रशासन से अपना दावा पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर, वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन मस्जिद की है। प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच के बाद जमीन का कुछ हिस्सा छोड़कर चौकी का निर्माण शुरू कराया

क्यूँ न लिख्ँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

RNI NO- UPBIL/2021/83001

मो. 9027776991

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेत् पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

पी0 जी 0फोरम द्वारा विंटर कार्निवाल जोशी ब्राहमण महासभा के अध्यक्ष

क्यूँ न लिखूँ सच

बरेली।महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, बरेली के पी.जी. फोर्म द्वारा परास्नातक के छात्र-छात्राओं के

शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया इसके तहत छात्र-छात्राओं को टनकपुर में शारदा नहर के उद्गम स्थल एवं नानक मत्ता गुरुद्वारे एवं वहां के संग्राहलय का भ्रमण कराया गया। इस भ्रमण में महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के पचास परास्नातक छात्र-छत्राओं ने भ्रमण में प्रतिभाग किया भ्रमण का आयोजन



शैक्षिणिक अधिकारी डॉ. मीनाक्षी चन्द्रा के नेत्रत्व में किया गया। इस भ्रमण में कला संकाय के डॉ. आरती बंसल, डॉ. सीमा श्रीवस्तव, चीफ प्रॉक्टर विपुल मेहरोत्रा, रसायन विज्ञान से डॉ. के.के. अग्रवाल जन्तु विज्ञान विभाग से डॉ. नीतू एवं डॉ. पूजा अग्रवाल तथा कंप्यूटर साइंस विभाग के संचित कक्कर ने छात्र-छात्राओं को भ्रमण के दौरान ज्ञानप्रद बातें बतायी। छात्र -छात्राओं से इन जरूरी बातों को जीवन में अमल में लाने की शपथ भी दिलाई।

गौरव राजपूत बने आरएलबाएस के महानगर अध्यक्ष

क्यूँ न लिखूँ सच

बरेली राष्ट्रीय लोधी बौद्धिक संगठन आर एल वी एस प्रयास ईसी संगठन की एक मीटिंग जिला बरेली में बरेली मंडल के संयोजक इंजीनियर आर.बी.राजपूत ,सेवानिवृत्ति महाप्रबंधक जलकल

विभाग नगर निगम बरेली एवं राष्ट्रीय महामंत्री इंजीनियर महिपाल सिंह लोधी, सेवानिवृत्ति अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग एटा लोधी समाज की एक बैठक का आयोजन पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस बरेली एवं अक्षर बिहार बरेली में संपन्न हुई। जिसका मुख्य उद्देश्य लोधी समाज के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाकर निशुल्क



पी.सी.एस और आई.ए.एस की कोचिंग दिलवाना तथा विद्यार्थियों में अधिकारी होने का जज्बा बढ़ाने का प्रयास इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय महासचिव महिपाल सिंह ने कहा की लोधी समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे श्री एन0बी0एस राजपूत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस समय राजपाल उड़ीसा के प्रमुख सचिव हैं उनका उद्देश्य समाज के उत्थान के लिए विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं इसी श्रृंखला में आज बरेली जिला की टीम घोषित हुई। जिसमें काफी समय से लोधी समाज में कार्य कर रहे युवा गौरव राजपूत को महानगर अध्यक्ष और जिलाअध्यक्ष एन. एल.राजपूत तथा कोषाध्यक्ष प्रवक्ता राम सेवक राजपूत तथा शहकोषाध्यक्ष एडवोकेट योगेश कुमारी तथा बरेली लोधी समाज के संरक्षक श्री निहाल सिंह , प्रभु लाल लोधी एडवोकेट रीतराम राजपूत डी.जी.सी, बरेली को सर्व सहमित से राष्ट्रीय महामंत्री मिहपाल सिंह एवं बरेली मंडल संयोजक इंजीनियर आर. बी.राजपूत द्वारा माला बनाकर बधाई दी ।इस मौके पर लोगों ने आजीवन सदस्यता ग्रहण की जिसमें रुद्र प्रताप सिंह राजपूत ,प्रमोद रघुवंशी ,निरंजन लोधी ,सुरेश वर्मा, ओमपाल सिंह ,जयवीर वर्मा, पी.एल. बर्मा, कन्हैया राजपूत, लालता राजपूत, निखिल राजपूत, राजरानी लोधी, प्रेमपाल सिंह लोधी, रामसेवक राजपूत आदि लोगों मौजूद रहे।

रोटरी क्लब बरेली साउथ के अध्यक्ष संजीव खंडेलवाल और सचिव संजय गर्ग बने

क्यूँ न लिखूँ सच -सत्यम शर्मा बरेली- बरेली। रोटरी क्लब बरेली साउथ की कार्यकारिणी की बैठक रोटरी भवन में संपन्न हुई



सर्वसम्मित से वर्ष 25 26 के लिए संजीव खंडेलवाल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया । सचिव संजय गर्ग को बनाया गया । वर्ष 26 27 के लिए रोहित जिंदल को प्रेसिडेंट नॉमिनी बनाया गया डॉक्टर विनोद पागरानी, विभोर भारतीय को वाइस प्रेसिडेंट, पंकज अग्रवाल सह सचिव, सुजीत जायसवाल कोषाध्यक्ष बनाए गए। अंकुर बंसल, राजीव बूबना, दिनेश प्रधान, शोभित अग्रवाल, विभोर अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, डॉक्टर अनमोल अग्रवाल डायरेक्टर नियुक्त किए गए । रोटरी पब्लिक इमेज चेयरमैन कपिल अग्रवाल और अनूप अग्रवाल, सह मेला डायरेक्टर वीरेश कुमार अग्रवाल , मित्तल रोशन अग्रवाल को नियुक्त किया। मनोज खंडेलवाल, शरद अग्रवाल, अमित मल्होत्रा, प्रदीप मधवार, मनोज सेठी, शिशिर पांडे, अनिल अग्रवाल, दिनेश गोयल, मुकेश गुप्ता, मनोज अग्रवाल, घनश्याम खंडेलवाल अजय जसोरिया, नीरज अग्रवाल, राकेश अग्रवाल राजू खंडेलवाल को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है । डॉ अरुण कुमार वन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, संजीव अग्रवाल विधायक बरेली कैंट, डॉक्टर आई एस तोमर, रवि प्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर रवि मेहरा, ध्रुव तिलक, अनुपम कपूर, दिनेश अग्रवाल, विशाल अरोड़ा विशेष कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए । मीडिया प्रभारी संदीप मेहरा को बनाया गया है ।

एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन बने राजीव और सचिव सूर्य प्रकाश

उधमसिंह नगर (उत्तराखंड)-जोशी ब्राहमण महासभा (उत्तराखंड)की एक बैठक लक्ष्मी विहार किच्छा में कार्यकारणी हेतु संपन्न हुई बैठक में सभापति (श्री - श्री पाल जोशी) को अगुवाई में और सभा के मुख्य अथिति श्री सुखराम जोशी के मार्गदर्शन में उधमसिंह नगर की जिला इकाई का गठन किया गया जिसमे जिला अध्यक्ष श्री राजीव जोशी को बनाया गया और सरक्षक श्री महेश पांडे,उपाध्यक्ष श्री जीतेन्द्र जोशी , सचिव श्री सूर्य प्रकाश , महासचिव- अमित जोशी ,संगठन मंत्री- अरविन्द जोशी ,जिला प्रवक्ता- श्री प्रमोद जोशी, मिडिया प्रभारी -श्री अखिलेश जोशी,प्रचार मंत्री-राजीव जोशी, प्रचार मंत्री-प्रवेश जोशी, कोषाध्यक्ष श्री राकेश जोशी, निरक्षक- श्री श्री पाल, जिला प्रभारी - श्री रिंकू जोशी,सदस्यगण श्री प्रदीप जोशी, श्री सचिन जोशी, श्री विकाश जोशी,श्री शनि जोशी, श्री राजू जोशी ,श्री एन.राज शर्मा



आदि लोगो को मनोनीत किया उनका आभार जताया और श्री श्री पाल जी ने कहा की श्री सुखराम जोशी जी के प्रयास मेरे साथ सलाह मशविरा उपरांत अंततः रुद्रपुर में जोशी ब्राह्मण महासभा की जिला इकाई का गठन पूर्ण हुआ।संगठन की एक और उपलब्धि।नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री राजीव जी और उनके साथ पदाधिकारियों को हार्दिक स्वागत एवम् धन्यवाद ।स्थानीय समस्त समाज बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने समाज हिट में एक नेक और शुभकामनाएं दी और सभी ने सहयोगात्मक कदम उठाया

रीना सागर गिरफ्तार, युवक का अश्लाल वीडियो बनाकर किया था ब्लैकमेल

पदाधिकारियों को हार्दिक

क्यूँ न लिखूँ सच -सत्यम शर्मा

बरेली। पुलिस ने हनीट्रैप गिरोह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गिरोह की सरगना ममता दिवाकर उर्फ मधु के बाद सिऋय सदस्य रीना सागर को गिरफ्तार कर लिया गया। बारादरी थाना पुलिस ने पीड़ित शुभनेश कुमार की ओर से दर्ज मुकदमे में यह कार्रवाई की है। शुभनेश को रीना ने



अपने साथी सत्यवीर व गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर झांसे में लिया था। उसे नशीला पदार्थ खिलाकर अश्लील वीडियो बनाई और पांच लाख रुपये की मांग करने लगे थे। पुलिस ने रीना को मिनी बाईपास स्थित उसके कमरे से गिरफ्तार कर लिया। दो दिन पहले सरगना मधु को जेल भेजा गया था। वर्ष 2023 में नवाबगंज क्षेत्र के शाहपुर निवासी शुभनेश किसी काम से विकास भवन आए थे। संजयनगर निवासी रीना उर्फ शीतल ने कॉल कर शुभनेश को मिलने बुलाया और

अपने मकान में ले गई। वहां माधुरी, ममता उर्फ मधु और सत्यवीर पहले से थे। शुभनेश को कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में शुभनेश के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। उसका डेबिट कार्ड और नकदी भी छीन ली थी। सादा कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे। पांच लाख रुपये देने के आश्वासन पर शुभनेश को छोड़ा था। कोर्ट के आदेश पर अप्रैल में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में नामजद माधुरी और सत्यवीर अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। गिरोह के चंगुल में फंसकर डॉक्टर ने गंवाई थी जान- हनीट्रैप गिरोह के चंगुल में फंसकर सुभाषनगर क्षेत्र के डॉ. अमरेंद्र चौहान ने आत्महत्या कर ली थी। गिरोह की सदस्य प्रिया गंगवार ने उनको धोखे से संजयनगर बुलाया था। बाद में उनको कर्मचारीनगर स्थित एक मकान में ले जाकर अश्लील वीडियो बना लिया था। डॉक्टर से डेबिट कार्ड छीनकर 50 हजार रुपये निकाल लिए थे। ममता उर्फ मधु के नाम से फर्जी कागजात तैयार किया गया। उसमें दर्शाया गया कि डॉक्टर ने मधु से एक लाख रुपये उधार लिए हैं। इसके बाद बाकी 50 हजार रुपये की वसूली के लिए गिरोह के सदस्यों ने डॉक्टर के घर और क्लीनिक पर जाकर हंगामा किया था। इससे परेशान होकर डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में ममता, हिमानी, शुभम और मोहित को गिरफ्तार कर जेल भेजा

कश्यप शक्ति महासंघ के बैनर तले विचार गोष्ठी एवं पद वितरण कार्यक्रम

क्यूँ न लिखूँ सच -सत्यम शर्मा

बरेली- आज कश्यप शक्ति महासंघ के बैनर तले विचार गोष्ठी एवं पद वितरण कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र बरेली में किया गया जिसमें जिला ,महानगर व ब्लॉक स्तर के पद अधिकारी उपस्थित रहे

कार्यक्रम में लगभग चार सौ लोग उपस्थित रहे संगठन के संरक्षक शिवचरन कश्यप सपा जिला अध्यक्ष ने कहा के समाज को एकजुट होनाऔर शिक्षित होना चाहिए इस संगठन के माध्यम से हम समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और आने वाले समय में जल्द ही ब्लॉक स्तर पर मीटिंग कर लोगों को शिक्षा और समाज में जागरूक करने का काम करेंगे एडवोकेट संतराम कश्यप ने कहा कि यह संगठन जमीनी स्तर पर लोगों की मदद करने का काम करेगा



और समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद करने का काम करेगा द्रोण कश्यप ने कहा के शिक्षा के बिना किसी भी समाज को उन्नति नहीं मिल सकती इसलिए हमारा उद्देश्य अपनी आने वाली पीढ़ी को उच्च स्तर की शिक्षा दिलाना होना चाहिए हमें गांव-गांव जाकर इस बात को लोगों तक पहुंचाना होगा यह समाज बहुत ही बहादुर और ईमानदार समाज है पुराने समय में यह समाज बहन बेटियों की डोली सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का काम किया करता था लोगों ने इसका शोषण किया है इसलिए यह समाज आगे नहीं बढ़सका कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट राजा बाबू कश्यप ने की कार्यक्रम में मुख्य रूप से संत कुमार कश्यप एडवोकेट,दोण कश्यप, नवीन कश्यप, राजवीर कश्यप, संजीव कश्यप, विवेक कश्यपएडवोकेट,शिवम राज कश्यप, रंजीत कश्यप, रवि कश्यप, विक्रम कश्यप, राहुल कश्यप,रामनरेश कश्यप गणेश कश्यप राजेंद्र कश्यप ईद कश्यप प्रवीण कश्यप आदि लोग उपस्थित रहे ।।

प्रिय सुधि पाठको आप अपना यहाँ शुभकामना सन्देश (Birthday, anniversary, any kind of message) कम कीमत में विज्ञापन छपवाए सम्पर्क करे- 9027776991

संक्षिप्त समाचार

उत्तरायणी मेले की तैयारियों के लिए बैठक आयोजित हुई

क्यूँ न लिखूँ सच -सत्यम शर्मा

बरेली-रविवार को जी. एस.एम.इंटर कॉलेज दामोदर पुरम सुभाषनगर बरेली इकाई की बैठक हुई।जिसमें बैठक की अध्यक्षता



द्वारा की गई तथा सभा संचालन क्षेत्रीय सचिव गौरव मिश्रा कि या मीडिया प्रभारी

जे.सी.काला

इस बार मेले 09,10,11 जनवरी 2025 को होगा।इस बार का 29 वां उत्तरायणी मेला बहुत भव्य और दिव्य होगा।जिसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे।मेले में उत्तराखंड के प्रसिद्ध खाने के स्टाल रहेंगे।प्रवेश निशुल्क रहेगा।बैठक में समिति के संगठन सचिव सी बी तिवारी, तारा दत्त जोशी,भुवन पांडे,महेश पांडे,मनोज पंत,नीतू मिश्रा,वंदना पंत,गिरीश जोशी,पूरन जोशी आदि सदस्यों ने अपने समिति के प्रति सुझाव दिए।

सपा जिलाध्यक्ष का ब्लैकमेलिंग वाला अश्लील वीडियो वायरल

क्यूँ न लिखूँ सच -सत्यम शर्मा

बरेली- समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में सपा नेता महिला से

अश्लील चैट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया वायरल होने के बाद विरोधियों ने भी आस्तीने चढ़ा



ली हैं। इस मामले में विरोधियों ने सपा नेता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वायरल वीडियो बरेली के सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप का बताया जा रहा है। हालांकि सपा जिलाध्यक्ष ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को खारिज करते हुए, इस मामले में फंसाए जाने का आरोप लगाया है, साथ ही पुलिस से शिकायत करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सपा के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप महिला से मोबाइल के जरिए वीडियो चैट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वायरल वीडियो में महिला और सपा जिलाध्यक्ष आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा जिलाअध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने बताया कि वायरल हो रहा वीडियो करीब ढाई साल पुराना है। ढाई साल पहले वाट्सएप पर अचानक इस महिला की वीडियो कॉल आई थी और अपने आप ही अश्लीलता शुरू कर दी। जिसके बाद उसके तरफ से कई बार मुझे धमिकयां मिल रही थी और वह पैसे की मांग कर रही थी। मगर मैंने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया तो उन्होंने अब ये वीडियो वायरल किया है। जिसपर अब मैं तहरीर दे रहा हूं ताकि उसपर आगे की कार्रवाई हो सकें।

कैब से स्कूटी टकराने पर चढ़ा महिला का पारा, चालक को कैब से खींचकर निकाला, एक मिनट में जड़े 20 थप्पड़

राजधानी लखनऊ के आशियाना में हुई एक घटना में एक महिला ने नाराज होने पर कैब ड्राइवर को एक मिनट में 20 थप्पड़ मारे।



उसने कैब में बैठी सवारियों से भी अभद्रता की।लखनऊ के आशियाना में शनिवार दोपहर कैब से स्कूटी के टकराने के विरोध पर महिला का पारा चढ़ गया। उन्होंने जानकीपुरम निवासी ओला चालक सुनील शर्मा को करीब 20 थप्पड़ जड़ दिए। कैब में सवार दंपती से 📮

भी हाथापाई की। पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।मूलरूप से कानपुर नगर के रहने वाले सुनील शर्मा के मुताबिक दोपहर पौने दो बजे वह मानस नगर निवासी सिद्धार्थ द्विवेदी व उनकी पत्नी को लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क जा रहे थे। आशियाना में पकरी के पुल की सर्विस लेन पर कैब में पीछे से स्कूटी टकरा गई।आरोप है कि स्कूटी सवार किशोरी से विरोध जताया तो उसकी मां मंजू ने गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्हें कैब से खींचकर बाहर निकाला और थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। दंपती ने बीच-बचाव किया तो मंजू ने उनसे भी हाथापाई की।मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। शाम करीब पांच बजे कैब चालक के साथी भी वहां पहुंच गए।

शामली नवीन गुढ मंडी मे मजदूरों ने किया प्रदर्शन रविवार को अवकाश की मांग

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता

शामली जनपद की नवीन गुढ मंडी मे दुकानों पर आढती के पास काम करने वाले लौगो ने हगामा

प्रदर्शन करते हुये रविवार की छुट्टी की मांग की वही उन्होंने जिलाधिकारी से रविवार के दिन दुकान खोलने के मामले मे व्यापारियों का चालान काटने की मांग की सदर कोतवाली क्षेत्र की नवीन गुड मंडी एक बार फिर चर्चा में है जहां शहर की नवीन गुड मंडी में कुल्लू चलने वाले अच्छा व्यापारियों ने कट्टे पर बट्टा लगाने को लेकर विरोध किया जिसमें हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ वहीं



रविवार को गुड मंडी में व्यापारियों के पास काम करने वाले पल्लेदारों ने एकजुट होकर हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को कार्यवाही की मांग की पल्लेदारों का कहना है कि रविवार को जहां शामली में सभी बाजार बंद रहते हैं वही गुड़ मंडी में हर नियम कानून को ताक पर रखकर दुकान खोली जाती है प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि हम लोगों को भी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए रविवार को भी खोलते हैं तो उनके खिलाफ श्रमिक अधिनियम के तहत कार्यवाही होनी चाहिए उन्होंने जिला अधिकारी से मांग किया कि रविवार को और महीने के

श्री महंत तारा की आंखों का तारा है सोमा, तिलक लगवाने के साथ ही बंधवाती है जटाएं

श्री महंत तारा गिरि बताते हैं, इसका जन्म सोमवार को हुआ था, इसलिए उसका नाम सोमा रखा गया। ल्हासा एप्सो नस्ल का यह डॉगी बेहद खूबसूरत और खास है। इसकी खासियत है कि यह

अधिक वफादार और स्नेही होने के साथ ही सतर्क निगरानी में भी माहिर होता है।महाकुंभ के अखाड़ा सेक्टर में नागा संन्यासियों के शिविर में भक्ति, और साधना अध्यात्म के अलग-अलग रंग दिख रहे हैं। इसमें नागा संन्यासियों का पशु प्रेम भी लोगों के



आकर्षण का केंद्र बन रहा है। गुरुग्राम के खेटाबास आश्रम से महाकुंभ में आए जुना अखाड़े के श्री महंत तारा गिरि अपने पेट सोमा के साथ ही धूनी रमा रहे हैं। संत की संगत में रहकर अब सोमा भी तिलक लगवाने के साथ ही जटाएं बंधवाती है। साथ ही सात्विक भोजन करती है।श्री महंत तारा गिरि बताते हैं, इसका जन्म सोमवार को हुआ था, इसलिए उसका नाम सोमा रखा गया। ल्हासा एप्सो नस्ल का यह डॉगी बेहद खूबसूरत और खास है। इसकी खासियत है कि यह अधिक वफादार और स्नेही होने के साथ ही सतर्क निगरानी में भी माहिर होता है।सोमा की देखभाल उनकी शिष्या पूर्णा गिरि करती हैं। पूर्णा बताती हैं कि साध-संतों के कोई परिवार या बच्चे तो होते नहीं हैं, ऐसे में सोमा जैसे पेट ही उनकी संतान हैं जिसे वो एक अतिथि की तरह रखती हैं। उन्होंने बताया कि जितना समय उन्हें अपनी साधना के लिए तैयार होने में नहीं लगता उससे अधिक सोमा को सजाने संवारने में लगता है। महंत श्रवण गिरि की साधना का हिस्सा बनी लाली-महाकुंभ के अखाड़ा सेक्टर में महंत तारा गिरि अकेले पशु प्रेमी नहीं हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से आए महंत श्रवण गिरि के लिए डॉगी लाली उनकी साधना का हिस्सा है। उनके एक हाथ में भगवान गणेश के नाम की माला रहती है तो दूसरे हाथ में लाली का पट्टा। महंत श्रवण गिरि बताते हैं कि 2019 के कुंभ में प्रयागराज से काशी जाते समय रास्ते में उन्हें लाली मिली थी। दो महीने की लाली तब से उनके साथ है। जब वह साधनारत होते हैं तो लाली शिविर के बाहर उनकी रखवाली करती है। इतना ही नहीं लाली का हेल्थ कार्ड भी उन्होंने बनवाया है जिसमें उसे निशुल्क उपचार मिलता है।

नए साल पर मंदिर और बाजारों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट, यूपी डीजीपी ने दिए सख्त निर्देश

नए साल के जश्न में यूपी में मंदिर और बाजारों में महिलाओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसके लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं।डीजीपी प्रशांत कुमार ने नए वर्ष पर मंदिरों और बाजारों में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने नए साल पर होने वाले आयोजनों के दौरान अग्निकांड आदि की घटनाओं से बचने के लिए अग्निशमन विभाग को भी सतर्क रहने को कहा है। साथ ही, नववर्ष की पूर्व संध्या से ही पीएसी बल के साथ फ्लैग मार्च करने का निर्देश दिया है।डीजीपी ने सभी पुलिस आयुक्त, एडीजी जोन, आईजी रेंज और जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया कि नववर्ष के आयोजनों को सूचीबद्ध करते हुये हाटस्पाट चिन्हित करके राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाए और फुट पेट्रोलिंग की जाए। संवेदनशील स्थलों व आयोजन स्थलों, होटलों, क्लब, मनोरंजन गृहों तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, जहां नववर्ष के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हो, पुलिस प्रबंध कर विशेष सुरक्षा की जाए। महिलाओं के आवागमन के मार्गों पर पेट्रोलिंग की जाए।लूट, चेन स्नेचिंग आदि घटनाओं की रोकथाम के लिए सादे वस्त्रों में महिला पुलिसकर्मियों तथा एंटी रोमियो स्क्राड को सिर्क्रय रखा जाए। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। धार्मिक स्थलों के आसपास सघन चेकिंग की जाए। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाए। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक एवं आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित होने पर तत्काल विधिक कार्यवाही करते करें।

कोंच फिल्म फेस्टिवल की अर्पिता को मिलेगा यूथ आइकन अवार्ड

अपना प्रदेश

क्यूँ न लिखूँ सच -राजेंद्र विश्वकर्मा

कोंच(जालौन) कोंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की गोरखपुर यूनिट की प्रभारी अर्पिता सिँह को स्वामी विवेका नंद यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा जायेगा यह जानकारी कोंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक संयोजक पारसमणि अग्रवाल ने देते हुये बताया कि प्रदेश के दस सर्वश्रेष्ठ युवा को युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा जाना है जिसमें इस साल मिलने वाले अवार्ड में कोंच इंटर नेशनल फ़िल्म फेस्टिवल) की गोरखपुर यूनिट प्रभारी अर्पिता सिँह का भी नाम सम्मिलित है संभावना है कि यह पुरुस्कार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के द्वारा दिया जायेगा अर्पिता सिंह पुत्री वीरेंद्र कुमार सिंह एक युवा कलाकार हैं जो कि आधुनिकता एवं नवीनीकरण के इस दौर में विलुप्त होती लोक संस्कार पारंपरिक गीतों के प्रति लोगों का पुन: रुचि बढ़ाने के लिए गायन एवं अन्य कार्य ऋमों के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक करती हैं। अर्पिता ने कोंच फ़िल्म फेस्टिवल के साथ साथ गोरखपुर महोत्सव, चौरी चौरा महोत्सव, बौद्ध संग्रहालय, संगीत नाटक अकादमी गोरखपुर संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, संस्कृति विभाग उ.प्र., दूरदर्शन एंव विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रमों में अपनी कला का परिचय दिया व सम्मान भी प्राप्त किया।अर्पिता की इस कामयाबी पर मिस यूपी एवं अभिनेत्री सिमरन कौर, फ़िल्म एवं टीवी अभिनेता बृजेश मौर्य, फिल्म एवं टीवी अभिनेता मान सिँह करामाती आदि फ़िल्म फेस्टिवल से जुड़े दर्जनों लोगों ने अर्पिता को शुभकामनायें प्रेषित की है

चोरी की घटना का अनावरण अन्दर 24 घण्टे व बरामदगी 01 अदद पम्पिंग सेट तथा 01 नफर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

बहराइच- अधीक्षक महोदय बहराइच द्वारा पूर्व से वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये दिशा निर्देश के अनुपालन मे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण), श्री दुर्गा प्रसाद क्षेत्राधिकारी

तिवारी व श्रीमान महोदय महसी श्री के श्रीवास्तव थानाध्यक्ष श्री नेतृत्व में उ0नि0 हे०का० राजेन्द अमरजीत के द्वारा 29.12.2024 को पुत्र अहमद नि0 नरहरगोड़ा थाना बहराइच को की सूचना पर समय



बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर दिनांक 26/27 को रात में मेटुकहा निवासी मनोज पुत्र सकटू के खेत से चोरी कर लिया गया था, को अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया। दौरान पूछताछ अभियुक्त द्वारा अपनी गलती की माफी मागते हुए बताया गया कि दिनांक 26/27 की रात में उक्त पम्पिंग सेट को मैं मेटुकहा से चोरी करके खेत सिचाई के लिए ले गया था। उसी दौरान मुझे जानकारी हुई कि कुछ लोग पिम्पंग सेट को खोज रहे हैं। इसलिए मैंने उस पंपिंग सेट को गांव के बाहर पेड़ की आड़ में पुआल में छिपाकर खड़ा कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 600/2024 धारा 303(2) बी०एन०एस० पंजीकृत किया गया था। जिसमे बरामदगी के आधार पर धारा 317 (2) बी.एन.एस. की बढोत्तरी की गयी है। दौरान गिरफ्तारी के समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान कर माननीय न्यायालय बहराइच रवाना

नए साल के जश्न को लेकर फतवा जारी: मौलाना रजवी बोले- इस्लाम में नाजायज है नववर्ष मनाना, यह ईसाइयों का समारोह



फतवे में कहा गया है कि नया करते हैं। ये ईसाइयों का जो ईसाइयों का नया साल है। ईसाई का मजहबी कार्यक्रम है, वो हर साल के पहले दिन जश्न मनाते हैं।नए साल का आगाज होने वाला है। इस मौके पर लोग जश्न मनाते हैं। एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए होटलों में प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इस पर चश्मे दारूल इफ्ता के हेड मुफ्ती और मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना और पार्टी करना इस्लाम में नाजायज है। फतवे में कहा गया है कि नया साल जनवरी से शुरू होता है, जो ईसाइयों का नया साल है। ईसाई का मजहबी कार्यक्रम है, वो हर साल के पहले दिन ज़श्न मनाते हैं। इसमें

विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन

खालिस धार्मिक कार्यक्रम है। इसलिए मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। इस्लाम इस तरह के कार्यक्रमों को शख्ती के साथ रोकता है। शाहाबुद्दीन रजवी ने फतवे में कहा है कि नए साल का जश्न मनाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, पटाखे दागना, तालियां बजाना, शोर मचाना, लाइट बंद करके हुड़दंग करना फिर लाइट को दोबारा जलाना, नाच गाना करना, शराब पीना, जुआं खेलना, अपने मोबाइल व्हाट्सएप से एक-दूसरे को मैसेज भेजकर मुबारकबाद देना, ये सारे काम इस्लामी शरीयत की रोशनी में नाजायज हैं।फतवे में मुसलमानों से कहा गया है कि गैरों के धार्मिक त्योहारों में शामिल होने, या खुद करने या

उसका एहतमाम देखने से बचें

रोंके। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का गैर शरई काम अंजाम देता है तो वो सख्त गुनेहगार होगा। मुसलमानों को चाहिए कि शरीयत के खिलाफ कोई भी कार्य न करें।

आप अपना किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित कराये जैसे नीलामी सूचना, बेदखली सूचना, ऋय विक्रय सूचना आदि, वो भी कम कीमत में संपर्क करे - 907776991

संक्षिप्त समाचार

बालाजी धाम पर 1 जनवरी को हवन पूजन कीर्तन भव्य भंडारे का आयोजन जायेगा

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता

शामली बालाजी धाम करनाल रोड पर नए साल के शुभ अवसर

पर 1 जनवरी को सुबह से हवन पूजन कीर्तन किया जाएगा मंदिर कमेटी से शोभित घर का यह कहना है कि बाबा बालाजी महाराज के मंदिर में सुबह *6*=00 बजे से हवन किया जाएगा उसके बाद बाबा बालाजी महाराज के बाहर से आए कलाकारों द्वारा सुंदर-सुंदर भजनों का गुणगान मधुर आवाज में किया गया है और भक्त जनों के लिए एक विशाल भंडारे का



आयोजन भी किया गया है जिसमें दूर-दूर से भक्ति जन आए और बाबा के भंडारे में सम्मिलित होकर धर्म के भागी बने और भक्त जनों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था मंदिर कमेटी द्वारा की

आयुष्मान काड बनाये जा रहे है

क्यूँ न लिखूँ सच -पवन कुमार

कोंच(जालौन) कोंच विकास खण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिरौना के प्रभारी अधिकारी डा. संगम साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर गम्भीर है तरह तरह की गम्भीर बीमारियो की चपेट में कब कौन आ जाएं कहा नहीं जा सकता जिसको दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार व्यक्ति के आर्थिक भार को कम करने के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं चला रही है क्यों कि व्यक्ति के स्वास्थ्य से लेकर उसके आय पर भी बड़ी से बडी चोट कब पहुंच जाएं यह कह पाना सम्भव नहीं है इसी को देखते हुए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय अपने आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को ऋमबद्ध तरीक़े से आयुष्मान कार्ड से आच्छादित कर रही है जिसके द्वारा आयुष्मान कार्ड धारक प्रत्येक वर्ष पाँच लाख रूपये तक का अपना सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सकता है इसी ऋम में सरकार के द्वारा 70 प्लस के सभी नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है जिसको हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिरौना में भी आयु ष्मान कार्ड बनाएं जा रहे है जिसमें व्यक्ति को अपना आधार कार्ड एवं एक मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है लेकर बायोमेट्रिक के लिए स्वयं आकर सभी बुजुर्ग अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवा ले जिससे स्वास्थ्य लाभ पाया जा सके।

08 अदद मय जलौनी व 02 अदद आरा व 02 अदद कुल्हाड़ी के साथ 01 नफर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

बहराइच- थाना रामगांव पुलिस द्वारा नीम की हरी लकडी का बोटा छोटा-बड़ा कुल 08 अदद मय जलौनी व 02 अदद आरा व 02 अदद कुल्हाड़ी के साथ 01 नफर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

विवरण- श्रीमान पुलिस वांछित चल रहे अभियुक्तों के अनुपालन मे श्रीमान (ग्रामीण), श्री दुर्गा महोदय महसी श्री डी0के0 आलोक सिंह के नेतृत्व में सन्दीप उपाध्याय, का० को अभियुक्त फिरोज उर्फ 35 वर्ष निवासी ग्राम मय नीम की हरी लकड़ी मय जलौनी व 02 अदद



अधीक्षक महोदय बहराइच द्वारा पूर्व से की गिरफ्तारी हेतु दिये गये दिशा निर्देश अपर पुलिस अधीक्षक महोदय प्रसाद तिवारी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी श्रीवास्तव के निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री **3**0नि0 अमित गोंड मय हमराह हे0का0 कृष्ण कुमार द्वारा दिनांक 28.12.2024 सनकी पुत्र फौजदार उर्फ रघ्यु उम्र करीब सोहरवा थाना रामगांव जनपद बहराइच का बोटा छोटा-बड़ा कुल 08 अदद आरा व 02 अदद कुल्हाड़ी सहित समय

करीब 18.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ०सं0 601/2024 धारा 4/10 उ0प्र0 ग्रामीण वन संरक्षण अधि0 पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारी के समय मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान कर माननीय न्यायालय बहराइच खाना किया गया।



सीडीओ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक

क्यूँ न लिखूँ सच -भूपेन्द्र तिवारी

समिति, एम.ओ.यू..ऋियान्वयन क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान अब तक जनपद बहराइच हेतु सापेक्ष इन्वेस्ट यू.पी. द्वारा निवेश ग्राउण्ड बेक्रिंग सेरेमनी(जीबीसी) जनपद को आवंटित लक्ष्य रू. बताया कि 101 इकाईयां विभाग से समन्वय कर अवशेष को हैं उनका क्रियान्वयन शीघ्र कराया सभी व्यापारियों व निर्यातकों से व्यापारियों को देने की भी बात दौरान बताया गया कि 01 अप्रैल पर प्राप्त हुए है जिसके सापेक्ष 2496 अण्डर क्वेरी तथा 59 आवेदन पत्र व लघु सिंचाई विभाग को निर्देश



बहराइच - उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उददेश्य से शनिवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र की अध्यक्षता में जिला निर्यात समिति एवं उद्योग बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न हुई। एम.ओ.यू. उपायुक्त उद्योग ने बताया कि ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 से निवेशकों द्वारा कुल 218 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए हैं। जिसके सारथी पोर्टल पर 2696.74 करोड़ लागत के 150 एम.ओ.यू. हेतु रेडी हुए है। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि जीबीसी रेडी हेतु 2500 करोड़ का लगभग 108 प्रतिशत है। उपायुक्त उद्योग ने क्रियाशील हो गये हैं। सीडीओ ने निर्देश दिया कि सम्बन्धित ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार करें और जो एमओयू रेडी जाय। सीडीओ ने पीएम सूर्य घर योजना पर चर्चा करते हुए इसके फायदे भी बताये। उन्होनें उपायुक्त उद्योग से इसका राईटप कही। निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर चर्चा के से 28 दिसम्बर 2024 तक 2780 आवेदन निवेश मित्र पोर्टल आवेदन स्वीकृत, 191 आवेदन पत्र निरस्त एवं 34 आवेदन पत्र समय अन्तर्गत है। लम्बित आवेदनों के सम्बन्ध में लोक निर्माण दिया गया कि शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराएं। मुख्य विका अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम

अधिकारी ने सम्बन्धित विभाग के से अधिक से अधिक आवेदन कराएं। उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया गया कि एम.ओ.यू. के माध्यम से निवेश को बढ़ाया जाय।धारा 80 से सम्बन्धित प्रकरण में उपायुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में सदर तहसील में 04 एवं महसी में 01 आवेदन समयान्तर्गत लिम्बत है सम्बन्धित उपजिलाधिकारी प्रगति से सिमिति को अवगत कराये। उद्यान विभाग से सम्बन्धित प्रकरण में सीडीओ को अवगत कराया गया कि अनूप कुमार बथवाल पार्टन मे. श्याम जेपी शकुन्तला इंडस्ट्रीज द्वारा 28 सितम्बर 2024 को सिमिति को अवगत कराया गया कि उनकी नवीन इकाई ग्राइडेड राइस व पोषक तत्वों के मिश्रण की प्रॉसेसिंग करके एफआरके (फोर्टिफाइड राइस कर्नेल) का निर्माण करती है जिसका उपयोग पीडीएस के अन्तर्गत वितरित राशन में होता है की जानकारी दी गयी। उद्योग विभाग द्वारा संचालित स्वरोज़गार योजनाओं पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार व ओडीओपी वित पोषण योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पीएमईजीपी अन्तर्गत कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 138 के सापेक्ष प्रेषण 443, स्वीकृति 91 तथा 88 का वितरण किया गया है। इसी प्रकार ओडीओपी वित पोषण योजना वार्षिक लक्ष्य 100 के सापेक्ष प्रेषण 178, स्वीकृति 38 तथा 33 का वितरण किया गया है। बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग केशव राम वर्मा ने किया। इस अवसर पर एसडीएम सदर राकेश कुमार मौर्या, सीएमओ डॉ संजय कुमार, सीवीओ डॉ राजेश उपाध्याय व अन्य सम्बन्धित अधिकारी, उद्यमी व्यापारी बृजमोहन मातनहेलिया, गौरी शंकर भानीरामका, कूलभूषन अरोड़ा, नवनीत अग्रवाल, अमित मिततल, विजय केडिया, मनीष मल्होत्रा, अशोक मातनहेलिया, दीपक सोनी (दाऊजी) व अन्य उद्यमी, व्यापारी, निर्यातक व सम्बन्धित मौजूद रहे।

धान खरीदी केंद्रों में बेमौसम बरसात राजस्व विभाग द्वारा गांव-गांव को लेकर की गई आवश्यक तैयारी बनाई जा रही किसान आईडी

सूरजपुर - जिले में बेमौसम बरसात को देखते हुए कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने सभी धान उत्पार्जन केंद्रों में भंडारित धान के सुरक्षित रखाव और बचाव के संबंध में बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने के



निर्देश संबंधित अधिकारियों दिए हैं। उन्होंने खाद्य अधिकारी को धान को बारिश से बचने के लिए उपार्जन केन्द्रों में कैप कवर, ड्रेनेज सहित सभी जरूरी इंतजाम किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही केंद्र में पानी जमा ना हो इसके लिए ड्रेनेज

सुनिश्चित करने हेतु निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की सहूलियत का ध्यान रखा जाए । साथ ही उन्होंने सभी एसडीएम को धान उपार्जन केन्द्रों की लगातार मॉनीटरिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने इससे संबंधित अधिकारियों को भ्रमण कर बारिश से धान को सुरक्षित रखने की सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। खाद्य अधिकारी श्री संदीप भगत ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश के अनुपालन में बेमौसम बरसात से संग्रहीत धान के सुरक्षा हेतु सभी 54 उपार्जन केन्द्रों में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में 36869 किसानों से धान की कुल खरीदी 1921268 क्रिंटल की जा चुकी है। समितियों से मिलर के द्वारा उठाव 308080.0 क्रिंटल तथा ट्रांसपोर्टर द्वारा संग्रहण केंद्र हेतु उठाव 254143.0 क्लिंटल कुल उठाव 562023.03 क्लिंटल मिलर ष्रह 1419520 क्लिंटल जारी किया

जहरीला कचरा नहीं जलेगा नहीं जलेगा के नारों के साथ पीथमपुर रक्षा मंच सर्व समाज की विशाल रैली निकली

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रदीप द्विवेदी

पीथमपुर - राम रामेश्वर मंदिर छत्रछाया पर सर्व समाज द्वारा यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विरोध में शहर के सर्व समाज द्वारा पीथमपुर इंडिस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी (रामकी) में यूनियन

कार्बाइड के कचरे को जलने के विरोध में रैली निकाली गई। समाज जनो का कहना है कि राम की कंपनी के विषैले कचरे से यहां की जनता पहले से त्रस्त है। पीथमपुर में पीने योग्य पानी भूगर्भ में नहीं बचा है। और एक बड़ी आपदा यूनियन कार्बाइड के जिस कचरे को यहां निष्पादित किया जाएगा ।यहां की जनता किसी भी हाल में यह कचरा यहां नहीं जलने देगी। जिसका विरोध हाथों में काली पट्टियां बांधकर, काले वस्त्र पहनकर तारों से



लिखी तिख्तयां लेकर विरोध प्रदर्शन में रैली के रूप में शामिल हुए। रैली में व्यवसायिक, प्रबुद्ध जन, डॉक्टर वकील, इंजीनियर , गायत्री परिवार, राजनीतिक सामाजिक पर्यावरण संगठन, समाज के प्रमुख, एवं मातृशक्ति भारी तादाद मे नारेबाजी करते हुए आईसर पुल के नीचे पहुंचे। यहां राष्ट्रपति के नाम सी एस पी पीथमपुर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन का वचन एडवोकेट राजेश चौधरी ने किया। इस अवसर पर अशोक पटेल, विजय रघुवंशी नगर पालिका अध्यक्ष सेवंती सुरेश पटेल, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष कविता प्रदीप द्विवेदी, नपा उपाध्यक्ष पप्पू आसोलिया पार्षद मनीष लालू शर्मा, संदीप रघुवंशी, जगदीश साहू,डॉ हेमंत पटेल, रोहित मेवाड़ा,राज पटेल विकास पटेल, मुकेश पटेल, हरीश पटेल, सुधाकर राय डॉक्टर कृपाराम मुकाती, डॉ हेमंत और मोनिका सोलंकी रमेश चंद्र मिश्रा आनंद राम करोले टीआर मिश्रा, बृजेश सिंह, विपुल पटेल, सत्यनारायण यादव, रामावतार यादव, लिलत पाटिल, विनायक गज्जू, पी एन सिंह सीडी पाटिल शिवाजी धनुरे, संजय ,शर्मा बालू महाजन, ओपी यादव, मानव अधिकार आयोग से सलीम शेख, सदर मुन्ना बारसी सहित काफी तादात में महिला पुरुष शामिल होकर कचरा नहीं जलने देंगे के नारे लग रहे थे। जुलूस में लोगों का आऋोश कचरे को जलाने के विरोध में दिख रहा था। जुलूस में लोग स्वेच्छा से जुड़ते चले गए और बड़ा करवा बन गया। जहरीला कचरा पीथमपुर में नहीं जले इसके लिए कई स्तर पर आंदोलन हो चुके हैं। कचरा नहीं जले इसके लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सोपा गया है।

क्यूँ न लिखुँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती राजस्व विभाग के लेखपाल और कानूनगो गांव में पहुंच कर सभी किसानों का आईडी बना रहे हैं। किसान आईडी के माध्यम से किसान सम्मान निधि के आधार कार्ड और फोटो किसान के आईडी से जोड़ रही है। अब अनेकों फर्जीवाड़े किसानों के राज हकीकत रूप से खुलने लगेगे। नायब तहसीलदार जमुनहा शुभम तिवारी ने विकास क्षेत्र जमुनहा की ग्राम पंचायत मनवरिया अनेकों फर्जीवाड़े किसानों के राज हकीकत रूप से खुलने लगेंगे दीवान गांव में चल रहे राजस्व विभाग के कैंप में पहुंच कर किसानों से रूबरू होकर किसानों से बातचीत की। इस दौरान सभी किसानों को किसान आईडी कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया। नायब तहसीलदार जमुनहा शुभम तिवारी ने बताया कि अधिकांश नामों में गड़बड़ी और आधार कार्ड लिंक न होने की वजह से बहुत किसान सम्मान निधि से वंचित हो रहे हैं। जबकि बहुत ऐसे किसान है जो पति व पत्नी दो इसका लाभ ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा अब किसानों के आधार कार्ड लिंक होने पर किसान आईडी कार्ड बनेगा और किसानों के खाते में सीधे सम्मान निधि का पैसा आयेगा।

चाचा ने पांच वर्षीय भतीजी के साथ किया दुष्कर्म

क्यू न लिखू सच -अरावद कुमार यादव

श्रावस्ती रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सगे चाचा ने अपनी पांच वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म किया और घर छोड़ कर फरार हो गया।मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित चाचा के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। हरदत नगर गिरंट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद घर से फरार हो गया बालिका खेलने के लिए घर से बाहर गई थी। इस दौरान रास्ते में उसका 21 वर्षीय चाचा गोकुल मिल गया। गोकुल बहला फुसला कर बालिका को अपने साथ गांव के बाहर स्थित प्राथमिक विद्यालय के पीछे ले गया। वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसे वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। बच्ची रोते बिलखते विद्यालय के गेट पर पहुंची। विद्यालय के शिक्षक की नजर रोती हुई पीड़ित बालिका पर पड़ी। इस पर शिक्षक स्कूल गेट पर आए और उसे चुप कराने लगे साथ ही बच्ची को उसके घर पहुंचाया। वहां बालिका की मां उसे चुप कराते हुए पूछताछ करने लगी। मां के पूछने पर बालिका ने घटना की जानकारी मां को दी। इसके बाद महिला बालिका को लेकर थाने पहुंची और घटना की जानकारी देते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस पर थानाध्यक्ष शैलकांत उपाध्याय ने टीम के साथ पीड़िता के गांव पहुंच कर घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही बालिका को जिला अस्पताल भिनगा भिजवाया। हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बालिका को जिला अस्पताल भिनगा से मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी गोकुल के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।

उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ब्लॉक मुख्यालय पर बैठक

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती तहसील जमुनहा क्षेत्र के उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन जमुनहा तहसील इकाई की



बैठक ब्लॉक मुख्यालय सभागार में की गई बैठक की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष बाबू राम पाठक ने किया और पत्रकार के हितों व एकता के संबंध में व संगठन को मजबूत बनाने के लिए विशेष चर्चा की गई बैठक में सदस्याता शुल्क जमा करने व कार्ड बनने को लेकर विशेष चर्चा हुई और सदस्यता संख्या बढ़ाने के लिए व सभी पत्रकार एकजुट हो कर

े कार्य करने के लिए चर्चा की गई इस मौके पर पत्रकार ,प्रेम चंद जायसवाल, प्रवीण कुमार मिश्र राहुल जायसवाल, प्रियव्रत मिश्रा,अमित विश्वास, मंजीत मिश्रा,मो शरीफ , अमरनाथ सिंह,सुधीर सिंह,वीरेंद्र कुमार,प्रदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी,नन्द कुमार गुप्ता संतोष कुमार गुप्ता,रुद्र सेन वर्मा, नीतीश तिवारी,अजय कुमार यादव,रिंकू जायसवाल व क्षेत्र अन्य पत्रकार मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार


www.knlslive.com

एसडीम चितरंगी द्वारा दखल रहित और भूमि अधिग्रहण में अवैध पट्टेदारों को बेदखल करने के लिए पटवारी को दिया निर्देश

क्यूँ न लिखूँ सच -अनुपम द्विवेदी

सरकार द्वारा चलाए गए भूमि अधिग्रहण और दखल रहित योजना 2015/16 भूमिहीन गरीब मजदूर जिसके पास मकान

बनाने के लिए जमीन ना हो उनके लिए यह योजना सरकार द्वारा चलाई गई! किंतु ऐसा नहीं हुआ हल्का पटवारी ने जो पात्रता की श्रेणी में आते थे उनको नजर अंदाज कर दिया और जिसके पास 1995 के बंदोबस्त के पहले से पट्टेदार हैं उनको सड़क के किनारे दो-दो आर ए का पट्टा



दिया और एक पूरी कॉलोनी बसा दिया और गरीब के पास मोटी रकम न होने से योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए इसकी शिकायत माननीय एसडीएम को दिया गया माननीय एसडीएम चितरंगी द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेकर हल्का पटवारी को तत्काल आदेश दिया कि तत्काल जांच कर कार्यवाही की जाए हल्का पटवारी द्वारा तत्काल जांच किया गया और कुछ ऐसे तथ्य पाए गए की कुछ पट्टेदार अपने पति की जगह पिता का नाम लिखवाकर खसरे में एक नया तरीका भी अपनाया है महाराज जी नंबर 954 ग्राम बड़कुड पूरे रकवे पर प्रकरण चल रहा है फिर भी अतिऋमण कार्यों द्वारा जबरदस्ती निर्माण कार्य हो रहा है हल्का पटवारी के मना करने के बावजूद निर्माण कार्य चल रहा है जबकि मनी एसडीएम द्वारा सखूत निर्देश दिया गया है फैसले तक कोई कार्य नहीं होगा देखते हैं पर क्या कार्यवाही होती है।

रेडऋाँस जिला प्रबंध समिति ने चुनाव कराने के लिये जारी की समय-सारणी

क्यूँ न लिखूँ सच

सूरजपुर -कार्यालय इंडियन रेडऋॉस सोसायटी छ0ग0 राज्य शाखा द्वारा रेडक्रॉस जिला प्रबंध समिति के चुनाव कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। जिसके अनुपालन में प्रबंध समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु 07 जनवरी 2025 को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, 08 जनवरी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि, 14 जनवरी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने का अंतिम तिथि, 15 जनवरी को नाम निर्देशन पत्रों की जॉच, 16 जनवरी को अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने का समय,17 जनवरी को निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रकाशन करना, 22 जनवरी को मतदान (यदि आवश्यक हो), 22 जनवरी को ही मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा के लिए समय सारणी का निर्धारण किया गया है। जहां नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रारंभिक व अंतिम तिथि के लिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छ०ग० कक्ष ऋ0 -07, वहीं मतदान (यदि आवश्यक हो तो) के लिए मंगल भवन सूरजपुर का निर्धारण किया गया है। नाम निर्देशन प्रपत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कक्ष क्रमांक-05 में प्राप्त किये जा सकेंगें।

जाली नोट के साथ दुकानदार ने एक व्यक्ति को पकड़ा

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती। थाना हरदत्त नगर गिरंट के जमुनहा बहराइच मार्ग पर गौसपुर साप्ताहिक बाजार में जाली नोट के साथ एक व्यक्ति को दुकानदारों ने पकड़ लिया। मामला उस वक्त खुला जब जाली नोट वाले व्यक्ति ने सब्जी खरीदा और पांच सौ की नोट दुकानदार को दिया तो दुकानदार ने कहा यह नकली नोट है फिर उसने दूसरी नोट भी पांच सौ की दी वह भी नकली निकली जब उससे छोटी नोट दुकानदार ने मांगी तो उसने सौ का नोट दिया परंतु वह भी नकली निकली फिर क्या था लोगों ने उसे पकड़ लिया और सभी नोटों को देखा तो पता चला। इसके पास नोट है वह सब नकली फिर क्या था बाजार के दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

हिंदी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र देनिक क्यूँ न छिखूँ सच

को आवस्यकता है उत्तर प्रदेश . उत्तराखंड मध्य प्रदेश ,दिल्ली ,बिहार पंजाब छतीसवाढ़ राजस्थान आदि सभी राज्यों से रिपोर्टर,जिला ब्यूसे विज्ञापन प्रतिनिधि की

सम्पक्त कर#90271776991

When you see these changes in the Whatever the reason, never skip eating these things immediately

It is also important to take a healthy diet to stay healthy. When you take a healthy diet, you remain healthy but when there are changes in your food, then you start lacking Vitamin

B12. In such a situation, it is important that you have a very good diet. Try to wake up in the morning and have breakfast every day and get enough sleep. Vitamin B12 is an important nutrient that is essential for our body. This vitamin helps in providing energy our body, keeping the nerves healthy, and formation of



red blood cells. When there is a deficiency of Vitamin B12 in our body, we may have to face many problems. In such a situation, it is important for you that when you see changes in the body, understand that there is a deficiency of Vitamin B12 in your body. Here we are going to tell you some changes which can happen due to the deficiency of Vitamin B12 in our body. Fatigue and weakness Due to the deficiency of Vitamin B12, we may feel tired and weak. In such a situation, if you have regular fatigue and weakness, then you may be suffering from a deficiency of vitamin B12. Due to fatigue, you keep falling ill and you do not feel like doing any work. Jaundice is also a sign- If you have jaundice, which we also call jaundice, then understand that there is a deficiency of vitamin B12. Many times there can be a deficiency in our body due to vitamin B12. Whenever you have jaundice, you should also get a body checkup of your body so that you know what is lacking in the body. Pain starts in the nervesPain in the nerves is also a sign of this. Let us tell you that due to deficiency of vitamin B12, there can be pain in our nerves. Due to deficiency of vitamin B12, we may have mental problems, such as stress, anxiety, and depression. At the same time, due to deficiency of vitamin B12, there may be a deficiency of red blood cells in our body. You will have to eat these things to get rid of the deficiency- Meat and fish: Meat and fish are good sources of vitamin B12. Dairy products: Dairy products, such as milk, cheese, and yogurt are good sources of vitamin B12. Eggs: Eggs are good sources of vitamin B12. Vitamin B12-fortified foods: Some foods, such as soy milk and cereals are fortified with vitamin B12. Vitamin B12 tablets: If we have vitamin B12 deficiency, we can take vitamin B12 tablets. But for this we should consult our doctor.

body, understand that there is a breakfast, first the effect will be seen deficiency of Vitamin B12, start on the face and then there will be problems in the whole body

By having breakfast, our body gets the energy which is required to work and participate in activities throughout the day. Apart from this, it helps in strengthening our digestive system, which provides essential nutrients to our body. At the same time, having breakfast helps in controlling our weight as it prevents us from overeating during the day. Make a habit of

having a healthy and heavy breakfast the morning-Include fruits in breakfast-Consume dry fruits breakfast the in morning People find very easy skip to



breakfast. However, many people skip breakfast in their daily routine. But they do not understand the problems caused by skipping breakfast. As age progresses, then the problems caused by skipping breakfast are known. In such a situation, try never to skip breakfast. Breakfast is very important for the beginning of our day. It provides us with energy and nutrition which is required to work and participate in activities throughout the day. Skipping breakfast can have many negative effects on our body and face. This effect will start appearing on the faceSkin problems: Skipping breakfast can cause skin problems, such as acne, wrinkles, and changes in skin color. Once all this starts happening on your face, then the only option for you is to take medicines. Dark circles under the eyes: Skipping breakfast can cause dark circles under the eyes, which are a sign of fatigue and weakness. Breakfast gives a lot of strength in the morning but when you remain hungry for hours, dark circles appear under your eyes. Change in facial complexion: Skipping breakfast can cause a change in the complexion of the face, such as the face may look pale or withered. Along with this, the complexion of the face fades. The glow of the face is completely gone. Problems in the whole body- Lack of energy: Skipping breakfast can cause a lack of energy, due to which you may feel tired and weak. Digestive problems: Skipping breakfast can lead to digestive problems, such as acidity, gas, and stomach pain. Skipping breakfast can also lead to gas in the stomach. Weight gain: Skipping breakfast can lead to weight gain, as you are more likely to eat more during the day. Effects on mental health: Skipping breakfast can also have an impact on mental health, such as stress, anxiety, and depression. Therefore, breakfast should never be skipped. A healthy and balanced breakfast provides you with energy and nutrition for the entire day.

Husband and wife should not do these things in front of children even by mistake, it has a very bad effect

When husband and wife fight in the family, it has a very bad effect on the children. Children feel very depressed by their parents fighting. You do not even realize that it has a lot of effect on your children's health and their career. Therefore, try to limit your fights to your bedroom only. Husband wife Relationship Some things are very important about the relationship

between husband But in this era of doing those things in should avoid doing. bad effect on the innocent, whatever children repeat the Therefore, husband such things in front of wife Relationship is a Fighting between negativity in the his parents fighting, Later on, the child all - Abuse between children can make bad words. When children, children to abuses on their other - Insulting children can hurt the forget all the limits in the child is very mentally happening in front of Husband and wife

front of small



and wife in front of small children. modernity, husband and wife start front of their children which they This is because doing this has a very minds of children. Children are the elders do in front of them, the same things when they grow up. and wife should try to avoid doing the children. Avoid fighting Husband very important relationship. husband and wife can create minds of children. When a child sees negativity is created in his mind. becomes irritable. Do not abuse at husband and wife in front of children get into the habit of using you use bad words in front of start repeating the same. This leads tongue later on. Do not insult each husband and wife in front of small self-esteem of children. When you a fight and start insulting each other, affected by this. Especially, he can disturbed by seeing these things him. Do not fight even by mistake should not fight during a fight in children. When you do this, then

understand that you have started trying to put the child in a very wrong zone. When a child sees a fight in front of his eyes, he gets mentally disturbed. When he grows up, he even starts hating his family members. To avoid these things, keep these things in mind- Communication: Communication between husband and wife is very important. With this, the differences between the two can be resolved. Respect: Respect is very important in the relationship of husband and wife. With this, the relationship between the two can be strengthened. Love and affection: It is very important to have love and affection between both. Love and affection is an important link between husband and wife. By doing this, you can strengthen the relationship.

'Someone please explain it to Uffff, these gestures! Disha Patani her...' What did Govinda's got such a bold photoshoot done daughter Tina say about women by lying on the ground, fans are that made people angry?

Govinda's wife Sunita is known for speaking her mind openly. In the last few days, she has given many such statements which are discussed a lot. In a recent interview, Sunita came with



her daughter Tina. During this, Tina has many things about women's period cramps. What did Tina about period cramps? I never felt this - Tina- Mother supported the daughter Bollywood a c t o r Govinda's daughter was recently seen with mother in an interview. During this, she has given many statements about period cramps in the conversation, which many women girls may have problems after hearing. What did Tina say about women?

Tina said that the problem of period cramps is felt only by the girls of Delhi and Mumbai. She said that this is a psychological issue and in such a situation, people who are not facing this problem also start feeling it after discussing it. I have never felt this - Tina - In an interview given to Hotterfly, Tina said, 'Women of Punjab do not even know when they have menopause because they do not feel it. Due to having a Desi body, I have never felt period pain or cramps. I have heard many girls often talk about cramps. If you eat ghee properly, correct your diet, stay away from useless dieting, sleep well, then things become normal automatically. Many girls feel this more because they start dieting without any reason. Sunita also supported her daughter and said that before taking any decision, consult a doctor. She joked, "Don't blame me later saying that Govinda's wife Sunita asked him to eat one spoon of ghee and he got a blockage in his heart." People criticized Tina - However, people did not like Tina's comment very much. One user wrote, "Oh! Who is she? What nonsense is she saying?" Another commented, "Please educate this girl! Problems happen due to lack of awareness! I am the person who has suffered pain all his life so, for God's sake, stop spreading false news."

unable to take their eyes off her

When it comes to the bold heroines of B-town, Disha Patani's name is definitely included in this list. Priyanka of MS Dhoni The Untold Story is today in the news on social media for her

hotness. Now she has set the internet on fire with her latest photoshoot. Fans are crazy after seeing her pictures. Disha Patani made her debut in 2015- Disha was last seen in Kanguwa Actress's photos went viral- Disha Patani's latest photos went viral Disha Patani, who left engineering studies 9 years ago and entered the film world, needs no introduction today. Apart from hit films, she has also stolen the limelight with her style statement. She often blows the senses of fans with her bold look. 32year-old Disha Patani is a beautiful girl from Bareilly. She started her career with modeling and today she is a big name in the acting world as well. But she steals the most limelight with her fashion sense. Her recent photoshoot is



the biggest example of this. She has set social media on fire with her latest photos. Disha Patani got a bold photoshoot done-Disha Patani has recently got a beautiful photoshoot done. On December 28, the actress shared a series of beautiful photos on her Instagram account. In the pictures, the actress looks stunning in a red color bodycon short dress. She has kept her look minimal with a necklace and bracelet and wreaked havoc with wine color lipstick. Disha Patani has given killer poses sometimes sitting and sometimes lying on the ground. These pictures of her seem to be of Christmas celebration because a Christmas tree is also visible in the background. These pictures of Disha are going viral on social media. Once again she has raised the temperature of the internet with her boldness. Ex-boyfriend's sister commented-Krishna Shroff, sister of ex-boyfriend Tiger Shroff, has reacted to Disha Patni's latest photoshoot. She has made a heart emoji in the comment. At the same time, best friend Mouni Roy has also commented on Disha's post and called her hot. Fans are also unable to take their eyes off Disha's pictures and are calling her hottest, lovely and elegant. Disha Patni's upcoming films- After making a splash in theaters with Kalki 2898 AD and Kanguva, Disha Patni has started preparing for her upcoming film Welcome To The Jungle. According to reports, Disha Patni's upcoming film Malang 2 can also be released in 2025 in which she will be seen with Aditya Roy Kapur.

Baby John fame Keerthy Suresh got annoyed on saying 'Dosa', told paparazzi, 'My name is Keerthy Dosa...

South's famous actress Keerthy Suresh is making a lot of headlines these days about Baby John. During an event, the paparazzi called the actress Dosa, after which she angrily explained how to take her correct name. Now this video is going viral on social media and users are trolling the paparazzi for doing this. Keerthy Suresh in the news about Baby John When paparazzi said Dosa, she retaliated like this - Recently married actress Whenever South actors come to Mumbai, often such news is heard that the artist was called Dosa and Idli. A similar incident has happened with Baby John star Keerthy Suresh. Keerthy was spotted outside a restaurant on the occasion of Christmas. During this, she looked a little annoyed after hearing some things from the paparazzi. Let us tell you what the paparazzi said that upset her. Paparazzi called the actress Dosa-Keerthi was spotted in Mumbai on the occasion of Christmas in a denim dress. Outside the event, she was posing for a photo to the paparazzi. Meanwhile, to get her attention, the paparazzi started calling her Kriti. Immediately after this, she corrected them and said, 'Kriti not Kirti.' After this, some paparazzi started calling her 'Dosa'. This is a word that some people use for South actors which is considered quite controversial. On being called Dosa, Kirthi said, 'Keerthi not Dosa, Kirthi Suresh. And I like Dosa.' The actress got married recently Talking about Kirthi Suresh's personal life, she has recently tied the knot. The actress got married to boyfriend Antony Thattil in Goa on December 12. This marriage was done according to Hindu customs. Family members, relatives and close friends were present at the wedding of Keerthy Suresh and Antony Thattil. They got married according to different religions. The actress had confirmed her relationship with Antony a few days ago. She was dating Antony Thattil for the last 15 years. Antony is a businessman living in Dubai. Baby John's collection so far- Baby John, directed by Kalij, was released on 25 December. Apart from Varun Dhawan, Jackie Shroff, Keerthy Suresh, Vamika Gabbi, Sanya Malhotra and Rajpal Yadav are seen in this film. Talking about its box office collection, the film has earned 19.65 crores so far. The story of the film is inspired by famous South actor Thalapathy Vijay's movie Theri. The story of this film revolved around a DCP who changes his life to keep his family safe.

